

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 25, 1967/चैत्र 4, 1889

No. 160]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 25, 1967/CHAITRA 4, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March 1967

S.O. 1014.—In exercise of the powers conferred by sections 30 and 153 of the Representation of the People Act, 1951, and of all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission hereby makes the following amendments in its Notification No. 464/HP/HP/67(4), dated the 6th March, 1967 (S.O. No. 833), namely:—

In the proviso added by the said Notification,—

(i) in clause (a), for the words “Kinnaur, Rohru, Chopal” the words “Kinnaur and Rohru” shall be substituted; and

(ii) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

“(aa) the 29th April, 1967, shall be the date on which the poll shall be taken in the area comprised within the Chopal assembly constituency forming part of Mahasu Parliamentary constituency”.

[No. 464/HP/HP/67(5).]

By Order,

PRAKASH NARAIN, Secy.

